

SHRI BAJRANG ALLIANCE LIMITED

Regd. Office & Works: 521/C, Urla Industrial Complex, Urla, Raipur 493221 (C.G.), India

Phone: +91-771-4288000, Fax: +91-771-4288001

E-Mail: sales.sbal@goeltmt.com, Website: www.sbal.co.in

Addl. Place of Business: Kh. No. 521/58, Dharsiwa-Tilda Road, Vill.-Tandwa, Tehsil-Tilda,

Dist.-Raipur 493116 (C.G.)

CIN No.: L27103CT1990PLC005964



Dated: 16.08.2024

To,
The Corporate Relation Department,
Bombay Stock Exchange Limited.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, MUMBA! – 400001

Ref: BSE Scrip Code- 526981.

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith a copy of the newspaper publications with respect to Unaudited Financial Results of the Company for the quarter/ three months ended 30th June, 2024 published in Mint and Chhattisgarh.

This is for your kind information and dissemination to all the concerned please.

Thanking you

Your faithfully,

For, Shri Bajrang Alliance Limited

Anshu Dubey

Company Secretary & Compliance Officer





'Equity talks separate from govt's stake sale'

The govt had reportedly approached sovereign wealth funds for stake sale

gulveen.aulakh@livemint.com **NEW DELHI**

odafone Idea's discussions with the government to take additional equity in the telco as part of the reforms package were independent of the Centre's decision to sell its holding, according to the chief executive officer of the telecom operator.

The government as a public shareholder is free to make decisions about its investments, chief executive officer Akshaya Moondra said in response to a query after India's No. 3 carrier announced results for the first quarter of FY25. "The only thing I would add to that is that whether the government continues with their shareholding or divests gradually or whatever thev may decide to do is independent of what their policy is."

The Financial Express reported last week that the government had approached sovereign wealth funds-Abu Dhabi Investment Authority, Qatar Investment Authority, and Singapore's Temasek-to see if they were interested in buying its 23.8% stake.

The conversion of debt to equity was a way to support the balance

sheet of the company and the policy of the government "remains the same", Moondra said. "What they do with their public shareholding, which it is, that is their decision."

The reforms package was announced primarily to have

three healthy private operators, he said. Vodafone Idea's obligations to the government stand at ₹2.09 trillion, including a deferred spectrum payment of ₹1.39 trillion and an adjusted gross revenue liability

of ₹70.320 crore. The carrier's losses narrowed to 36,434



Vodafone Idea chief executive officer Akshaya Moondra.

crore for the quarter ended June 2024, from ₹7,674 crore the year before. Revenue shrunk to ₹10.508 crore from ₹10.606 crore, even as it recorded 12 consecutive quarters of 4G subscriber additions taking its 4G base to 126.7 million.

Average revenue per user, a key metric

expand its networks. The unprofitable telco raised ₹24,500 crore over last few months through India's largest FPO, giving equity worth ₹2,460 crore to its equipment vendors Nokia and Ericsson in lieu of pending dues, and issuing preferential equity shares worth ₹2,080 crore its promoter

> The carrier, along with rivals Airtel and Jio, raised tariffs by 10-21% across the board, which Moondra said was a step towards better return on investment and to improve cash generation to support the large investment require-

Moondra said that immediately after the hikes, portouts to BSNL increased. "The reason for that is, of course, that they have not increased their tariffs, so there is a fair amount of arbitrage. However, we are watching the space," he said.

THE average

revenue per user

improved 4.2% year-on-year to ₹146 for the No. 3 carrier

UNFAZED

THE carrier's

obligations to the losses narrowed government stand at ₹2.09 trillion amid to ₹6,434 cr for the quarter ended equity discussions

VODAFONE Idea's

of profitability, improved 4.2% year-onyear to ₹146 for the No. 3 carrier with 210 million subscribers, but it remained flat on a sequential basis.

The Aditya Birla Group-promoted carrier said that it was in talks with lenders to secure debt funding of ₹35,000 crore to

X	FINANCIAL SERVICES	

Max Financial Services Limited

	STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024										
					(Rs. in Cr	ores except pe	r share data)				
			Standalone		(d					
SI No.	Particulars	3 months ended 30.06.2024	3 months ended 30.06.2023	Year ended 31.03.2024	3 months ended 30.06.2024	3 months ended 30.06.2023	Year ended 31.03.2024				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)				
1.	Total income from operations (net)	3.77	5.12	21.72	11,802.03	9,171.46	46,618.31				
2.	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.32)	(2.17)	(11.56)	181.75	118.00	414.82				
3.	Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.32)	(2.17)	(11.56)	181.75	118.00	414.82				
4.	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.60)	(2.37)	(11.24)	155.94	101.13	392.58				
5.	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(2.62)	(2.39)	(11.34)	155.91	104.13	394.69				
6.	Paid-up equity share capital (Face Value Rs. 2 Per Share)	69.02	69.02	69.02	68.68	68.71	68.73				
7.	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	6,683.05	-	-	3,797.20				
8	Earnings per share (of Rs. 2 each) (not annualised)										
a)	Basic (Rs.)	(0.08)	(0.07)	(0.33)	3.69	2.54	9.85				
b)	Diluted (Rs.)	(0.08)	(0.07)	(0.33)	3.69	2 54	9.85				

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange website, www.nseindia.cor

Date: August 13, 2024 Place: Gurugram



By Order of the Board **Analiit Singh** DIN: 00029641

	Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter/three Month Ended June 30, 2024 Rs. In Lacs										
SI.	Particulars			Standalone			С	onsolidated			
No.		Quarter ended		Year ended	r ended Qu			Year ended			
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024		
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited		
1.	Total income from Operations	13,116.04	23,022.65	15,128.13	57,424.41	13,106.89	23,022.65	15,128.13	57,426.41		
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	48.90	485.14	377.76	486.59	39.70	484.52	377.56	487.15		
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	48.90	485.14	377.76	486.59	39.70	484.52	377.56	487.15		
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	34.75	376.12	270.80	312.56	25.54	375.66	270.60	312.85		
5.	Shares of Profit of Associates	1.00		1.2		670.27	1,093.63	937.13	3,773.41		
6.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	84.45	382.61	303.65	395.69	745.52	1,475.78	1,240.58	4,169.39		
7.	Paid-up Equity Share Capital	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		

0.39 4.18 3.01 3.47 7.73 16.33 13.42 45.40 8. Basic and Diluted Earning per share (of Rs. 10/- each) (not annualised) Note: 1 The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 13.08.2024. Note: 2 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended/ three months 30.06.2024 filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended/three months on 30.06.2024 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website www.sbal.co.in.

By Order of the Board (ARCHIT GOEL)

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि

ई-निविदा सूचना नयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर के स्वामित्व वाले आरसीडीएफ परिसर स्थित गर्लर संख्या 186 पर बिक्री कार्य/संचालन हेतु र्लीज पर आवंटन करने बाबत् अनुभवी/प्रतिष्ठित कर्मों से ई–निविदा के माध्यम से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर दरें ऑमंत्रित की जार्त । विस्तृत निविदा प्रपत्र वेबसाईट www.jaipurdairy.com व http://sppp.rajasthan.gov.in से र्भ उनलोंड किया जा सकता है। NIB Code: CDF2425A0293



ई-निविदा सुचना कार्यालयीन ई-निविदा सुचना जा.क्र.कावि/मनपा/ई-निविदा/श.अ./अल्पसंख्यांक/३४६४/२०२४

दे. १२/०८/२०२४ अन्वये अल्पसंख्यांक निधी सन २०२४-२५ अंतर्गत परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी अंतर्गत ०३ कामांची ई-निविदा पध्दतीने निविदा मागविण्यात येत असन प्तदर कामाच्या निविदा बाबतचा तपशील, अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासनाचे nttp://mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर दि. १३/०८/२०२४ पासून पहावयास उपलब्ध आहेत

शहर अभियंता परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी

Standard Chartered Capital Limited

CIN: U65990MH2003PLC142829

Registered Office: Crescenzo, 6th Floor, G Block, C-38/39, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai - 400 051, Maharashtra, India

Website: www.sccapital.in

Email: SCCapital.customercare@sc.com Toll Free No.: (91-22) 18002090505, Fax: 022-61157825



STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 [Regulation 52(8), read with regulation 52(4) of the Listing Regulations]

(INR Lacs)

Sr.		Quarter	Ended	Year Ended
No.	Particulars	June 30, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	23,312	14,866	72,126
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items*)	6,505	3,832	21,000
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items*)	6,505	3,832	21,000
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items*)	4,779	2,853	15,535
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,794	2,853	15,513
6	Paid-up Equity Share Capital	52,741	45,439	52,741
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	92,031	74,572	87,236
8	Securities Premium Account	25,558	-	25,558
9	Net worth	1,70,330	1,20,011	1,65,535
10	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	7,28,872	5,53,274	7,03,825
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	4.28	4.61	4.25
13	Earnings per share of face value of Rs 10 each (for continued and discontinued operations)			
	(a) Basic (INR)	0.91	0.63	2.95
	(b) Diluted (INR)	0.91	0.63	2.95
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15	Debenture Redemption Reserve	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

Exceptional and/or Extra Ordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules,

Place: Mumbai

Date: August 12, 2024

- a) The above is an extract of the detailed format of quarterly/audited annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity Standard Chartered Capital Limited (https://www.sccapital.in/policies-and-reports.html)
- b) For the items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (Bombay Stock Exchange) and can be accessed on the URL (https://www.sccapital.in/policies-and-reports.html)
- c) The above financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 12 August 2024.

For and on behalf of the Board of Directors of **Standard Chartered Capital Limited**

(Formerly known as Standard Chartered Investments and Loans (India) Limited)

Nirmal Kishore MD & CEO DIN: 10260505

Adfactors 254

CORPORATE BUZZ **MOU SIGNED BETWEEN ASSAM CM AND DOORDARSHAN**



POWERGRID RECEIVES LOI FOR ACQUIRING "BHADLA-III

Prasar Bharati in collaboration with Assam cultural department has proposed to develop a Documentary series based on the life of Bir Lachit Borphukan.

In this regard, an MoU was signed between the Assam government and Prasar Bharti in Guwahati in the presence of Assam CM Himanta Biswa Sarma and DG Doordarshan

POWER TRANSMISSION LIMITED"

Power Grid Corporation of India

Limited (POWERGRID) - a Ma-

haratna CPSU under the Ministry

of Power on August 12, received a

Letter of intent (LoI) for acquiring

a Project Special Purpose Vehicle

(SPV) viz "Bhadla-III Power Trans-

mission Limited" for establishing

the transmission system associated

with "Additional Transmission Sys-

tem for Evacuation of Power from

Bhadla-III PS as Part of Rajasthan

REZ Phase-III Scheme (20 GW)".

POWERGRID emerged as the suc-

cessful bidder for the aforemen-

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited

ONE INDIA - ONE TICKET'

(IRCTC) and the National Capi-

tal Region Transport Corporation

(NCRTC) collaborated to enhance

the travel experience for passen-

gers of the Namo Bharat trains over the Delhi-Ghaziabad-Meerut

RRTS Corridor through the 'One In-

RRTS project implemented by the

NCRTC across the NCR, is a new,

dedicated, high-speed, high-capac-

ity, comfortable commuter service

connecting regional nodes in NCR.

dia - One Ticket' initiative.

INITIATIVE BEGINS

Kanchan Prasad.

Addressing the gathering CM Himanta Biswa Sarma said that it is very good news for the people of Assam. For the first time, a documentary Series will be made on the life of the great Ahom warrior Bir Lachit Borphukan. 52 episodes will be made which will be produced by both Assam Government and Prasar Bharti.

RAJEEVA BECOMES **EXECUTIVE DIRECTOR OF PSB**

Mint Media Marketing Initiative



charge as Executive Director of the Punjab & Sind Bank wef August 9. Prior to his

elevation as Executive Director of Punjab & Sind Bank, he was Chief General Manager of PNB. Rajeeva, a postgraduate in Arts, is also a Master of Business Administration in Banking & Finance and a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He joined the services of PNB in 1993. In a carrer spanning over three decades, Rajeeva gained expertise in almost all the key areas of Banking, having served in Rural and Urban Branches.

BHEL SECURES ORDER FOR 2X800 MW PROJECT

Bharat Heavy Electricals Limited has won a prestigious order for setting up a 2x800 MW supercritical thermal power project on an EPC basis from Damodar Valley Corporation (DVC). The order for the coal-based project to be set up in the Koderma district of Jharkhand has been awarded through International Competitive Bidding (ICB).

Significantly, this is the first 800 MW project of DVC and will be set up adjacent to the existing 2x500 MW units, which were also installed by BHEL on an EPC basis.





DELHI BOOK FAIR 2024 CONCLUDES SUCCESSFULLY Book event always remains a

(TBCB) process.

tioned project after competing with

other private sector players and

emerging as a successful bidder

in Tariff Based Competitive Bidding

mega attraction for book lovers, especially students. The five-day book bonanza, Delhi Book Fair 2024 concluded on a successful note this year as well. The event was organised by the India Trade Promotion Organisation (ITPO) in association with the Federation of Indian Publishers (FIP) along with its allied events, the Stationery Fair and office automation and Corporate Gift Fair from August 7 to 11, 2024 at Hall No 12 &12A, Bharat Madapam, New Delhi.



पंडरिया शक्कर कारखाना में करोड़ों के घोटाला का आरोप, किसानों को हो रहा है भारी नुकसान

कांग्रेसियों ने सीएम, पंडरिया

विधायक व कारखाना के एमडी

का फूंका पुतला, सींपा ज्ञापन

'छनीसगढ़ 'संवाददाता

कवर्षा, १४ अएस्त ।विधानसभा पंदरिया में संचालित तरदार ब्राम्भ भाई पटेल सहकारी उक्तर उत्पादक बारखान में कम रिक्वरी दिखाकर करोड़ों का भोटाला करने तथा लाखों रूपए लेकर पुराने अभिवर्धे को बेवजड इटाकर उनके स्थान पर नए अभिकों को कारखाना में भर्ती कराने

का आरोप लगाते हुए जिला करियम कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पंडरिया विधानसभा प्रत्यशी रहे नील चन्द्रवंशी के नेतृत्व में मंगलवार को जिला

मुख्यालय कवर्षा में सिद्धल चौक के पास स्थित कांग्रेस - प्रदेश सरकार को होने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा भवन के सामने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साप, पंडरिया विधायक भावन बोहरा तथा कारखाना के एमडी सतीर पारले का पुत्रला दहन किया गया। इस अवसर बडी संद्या में उपस्थित कडिस कार्यकर्त में ने जमकर नरेवाजी

उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दीवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को जापन साँचा। उन्होंने चेतावनी दो को अगर जल्द हो मामले की जांच कर दोषियों के जिरूद्ध कार्रज़र्ड नहीं की गई हो।

जाने वाले दिनों में इस बतो हों के पोटाले को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

नील चन्द्रवंटी ने कहा कि सरदार वाहव भाई पटेल सङ्गारी शकर उत्पादक कारखाना पंछरिया के एमडी सतीरा पाटले ने पंडरिया निभायक भावना बोहरा के साथ मिलीभगन कर रिक्टवरी गृशि 11.61 करोड़ रूपए

एवं 12.21 करोड़ रूपए की सकर को नोरी छिपे नेनकर कृत 23.82 करोड़ का भारी भरकम घोटाला किया है। यहाँ इस बात की जानकारी

इस बड़े पोटाले को दबाने का प्रवास किया जा रहा है। श्री चन्द्रवंत्री ने बताया कि गान पैराई सत्र 2023-24 में पूरे देश में गुड़ और राजर के उत्कद में बेतहासा युद्धि हुई । अगर छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित सहकारी राजर उत्पादक कररखानों की ही बात की जाए तो माँ महामाख सङ्कारी सकर कररखाना सरगुजा में विछले वर्ष शकर न्य उत्पदन है, ५५ प्रतिसत हुआ ना इस तर्ष ५,५५ प्रतिसत उत्पादन हुआ है पानि लगभग 1 प्रतिसत की नृद्धि दर्ज

अंधेरे में डूबा 30 घर, शिकायत करने बिजली दफ्तर पहुंचे ग्रामीण

'छनीयगढ' संवाददाता वर्लंद्रवाज्ञर् १४ अगस्त। जिला । जंगली जानवरो वर भी खतरा वना मुख्यालय के पलारी विकासखंड के एहता है। ग्राम पंचापत अमेटी में बीते ठेड़ मह जलों से पानी मिलना बंद, हैंडपंच में विद्युत समस्य को लेकर दो दर्जन मे अधिक महिला एवं पुरुष शिक्यपत भरने विद्युत सब स्टेशन पतारी पहुँचे। होने के चलने पानी को लेकर भी ग्रामीओं की दिकायत है कि गांत में समस्य काफी बद गई है इससे नल

हो लती है। किरुप्त के बाद कर्मकरी ग्रामी मों को पानी के लिए जाकी सुश्चर कर आने हैं, उसके बाद कुछ परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा ही दिनों बाद फिर से लाइट बंद हो। समस्या का स्टमना स्कूलों में मध्यान नहीं है। आर दिन विजली तुरी बहारी । भोजन चलने वाली सब सहावता समृह करने की मांग की।

माब ही नदी किनारे का क्षेत्र होने के जिस्ता विभाग के दफ्तर आए हैं।

पहरता है। विजली बंद होने से प्रामी खें जाने के लिए जान जोत्विम में छलकर

विधायक कार्यालय में अंबिका मरकाम करेंगो ध्वजारोहण नगरी, 14 अगस्त । विधायक कार्यालय नगरी में सिहाज विधानस्था क्षेत्र की विधायक अभ्वक्त मरकाम ध्वजरोहण करेंगी। इस अवसर पर क्लॉक कांग्रेस कमेटी नवरी के अध्यक्ष भूषण साह ने समस्त कांग्रेसजनों को अधिक से अधिक संख्या में ध्वलग्रेडण कार्यक्रम में उपस्थित होते

कारम गाँव में रात को अंधेरा होने पर

का पानी दृषित

इनका बढ़ना है कि बिलली बंद जए दिन फल्ट जाने से चिनती चंद्र जल योजना वृत्ती तरह से ठप पही है। की महिलाओं को करना पढ़ता है। प्रामीमों का कहना है कि उनके महिलाएं पास हो महानदी से पानी गांव के 30 परों में बिकली बंद होने। लेने जाती है अभी महानदी में बाद से अंधेरे में द्वा हुआ है और घर में आने की वजह से नदी में पानी ज्वादा सोगों करे एत में लातटेर, दीय जलावा है। महिलाओं ने कहा कि चनी लेने को रात में काकी परेशानो हो रही है। जाना पड़ता है। हमें नदी में फिमलने रात को जिजलो जंद होने से मन्छर का खतरा बना रहता है इसलिए परेशन के बररण ग्रामीण काकी परेहात हैं। होकर आज हम अपनी हिकायत करने

ने भी जिसकत को।

(देवधीग रोड) तरफ होते हुए आगे जाकर वापस पुलिस परेड ग्राउंड में समात हुई। इस दौरान अपर कलेक्टर अर्थन्द पाण्डेच, अतिरिक पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चंद्राजर, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, राकेश गोलाझ, एसटीएम विज्ञात महत्राणा, जिला शिक्षा अधिकारी एके सारस्वत, सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी, स्वती बच्चे, गणमान्य नागरिक स्वतंत्रता दौरू में सामिल हर। स्वतंत्रता दौट में सामिल सभी लोगों ने सहिष्ण्या एवं देळपति का परिचय देते हुए बर्स्यक्रम को सफल वनाने में अपना सहयोग दिया। स्वतंत्रत दीह के समापन अवसर पर कलेक्टर आह्वाल ने जिलेकारिकों को स्वतंत्रता की 77 जो जर्पगांठ को अधिम कथाई देते हुए कहा कि इसको रुवतंत्रता दिलाने कले शरीदों के योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को अधूण यनाना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने देश प्रक्रि की भावना से जोठ और जुनून के साथ स्वांक्रा दीड़ में शामिल स्कृती बच्चे, नागरिकों और क्वाओं को वधाई दी।इस दाँरान कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीशक ने दीड़ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान वाले प्राप्त करने धायकों

देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता का संदेश लेकर कलेक्टर- एसपी के साथ दौड़ा गरियाबंद

' छनीसगढ ' संवाददाता

गरियाबंद, 14 अगस्त। कलेक्टर दौपक क्यार भग्नवाल के निर्देशानुसार आजादी के 77वीं वर्षगांत पर प्रक्रियर्ष की तरह इस बार भी गरियाबंद बिखे में स्वतंत्रक दौद कर आयोजन किया गया।

देश को एकता, अखंडल और स्वतंत्रता को अधुण रखने का सदेश लेकर सुबह पुलिस परेड आउंड परिपार्कर से क्लेक्टर दीपक अग्रवल और वरिष्ठ पुलिस कक्षत अभित द्वाराम कांबले के साथ पूरा गरियकंद राहर स्वतंत्रता दोड में रामिल हुआ। स्वतंत्रत का संदेश लेकर जिले के एक्सी बच्चे, युवा और गणमान्य नगरिकों ने जोश और जुनून के साथ रिमक्रिम चारित में दीह लगाई। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जिला प्रशासन तथा खेल एवं पना कल्पाम विभाग द्वारा आयोजित इस टीड में खेल संघों के पद्मधिकारी, खिलादियों, एनसीसी केटेटम, एनएसएम के जार-जाताओं, म्कास्ट गाइड के सदस्य, पुतिस के जवान सहित अधिकारी-कर्मपारियों

स्वतंत्रता दौद सुबह सात बने गरियाबंद के पुलिस लाईन से प्रारंभ हुई जो जिला कार्यालय परिसर रोड - को बेडल पहनकर सम्मानित किया।

टोला घाट में जलाभिषेक उमड़े शिवभक्त

'छनीसगह' संवादराता

उतर्र, 14 अगस्त । टोलाचाट के प्राचीन जिन्हालय में जलाभिषेक के लिए विहाल कावड़ पात्र का आयोजन बोलबम कांबड यात्रा समिति पाटन क्षेत्र द्वारा किया गया। प्रात: 8 पजे से ही घटन, अधनपुर, कुरुद, प्लॉक के 201 रावों से शिवधनों का रेखा कांबद लेकर पहुंचने

समा, कांबद से जस सेकर आने का सिर्लासला दोपहर 3 क्रमे तक अनवस्य फलवा रहा ।

बोल वम कावद यात्रा समिति के संयोजक जिलेद वर्मा के नेतृत्व में ओरगर तालाव पाटन के जिल मॉदर

से पूला-अर्चना कर हजारों कांबह पात्रो पर बाध करते. हुए हर इर महादेव के जपधोष के खध टोलाबाट शिव मोदर पहुंचे। ध्रेजे को धुन पर युवक, युवलियों, महिलाओं और बतुर्गों ने जोश के साथ कांत्र ह बात में भाग लिया।

टोलापाट के शिव मंदिर पर्दनकर पे. कथ्न कमार विवारी के मानिश्य में विधि विधान से स्ट्राधिपक. जलाभिषेक और महाआरती कर प्रदेश के सुला-समृद्धि के लिए करमनाएं कर आरी वर्षद मांगा। कायड पापियों के जन सैलाय ने हर हर महादेव के जबयोग से पूरे परिसर को शिवनय बना दिया। विशास कायद यात्रा महोत्सव में भारतों का तांत लगा रहा । छतीसगढ़ी लोक करवा मंच । रहा है ।

रंग स्वगर की अनुषम पन्ति में प्रस्तुति से सारा वातावरण हिल धक्ति में इब राया। मंत्रीय कार्यक्रम में दर्ग लोकसधा रहोसद और पाटन विधानसभा प्रत्यासी विजय वर्षेत ने कहा कि भगवान किय को भनित से ओलतीन यह कार्यक्रम लगातार १२ वर्षों से जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है। साल दर साल करकड़ बाबा का यह कार्यक्रम

> लोकप्रियत की ऊंचाइयाँ को छु रहा है। उन्होंने घोल बम कांवर पात्रा समिति पारन के संयोजक जितेंद्र वर्मा द्वरा आयोजित कांत्रर यात्रा महोत्सव की सरहता को ।पूर्व विधायक लाभवंद

वापला ने कहा कि कांबर पात्रा का यह कार्यक्रम भगतान शिव के प्रति अपनी थिंक के प्रकटीकरण का मारुपम है। जिना कियों से अधिक सहयोग प्राप्त किए बोलबर कांनर पात्रा समिति पाटन के संयोजक जिलेन्द्र नर्या के नेतृत्व में रबानीय चुवाओं और महिलाओं द्वारा लगलर 12 मातों से यह आयोजन हो रहा है, शिवधित के माध्यम से क्षेत्र की जनता को जोड़े रखने का यह बहुत हो उत्तम कार्यक्रम है। जिला भागपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्ग ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृत और आशोर्वाट से यह करवंक्रम लगातार सफलता के साथ संचालित हो



की अपील की है।

राशन कार्ड वितरित पिथीय, १४ अगस्त । स्थानीय

नवर पंचायत परिवार विश्रीत में आयोजित एक कार्यक्रम में नगर के पात्र हिटझाहियों को गरीबी रेखा राहन काई वितरण किया गवा। नगर पंचाकत चरिसर में नगर पंचापत अध्यक्ष आत्वाराम पादव ने स्वयं उपस्थित होकर समस्त हिताप्रदियों को गरी भी रेखा राजन भाई का विदर्भ किया। गतन काई पाकर समस्त इतदही आयंद्रप्रसम्बद्धाः । इस अवसर पर श्री यदन ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रात करने हेत् गरीबी रेखा राजन कार्ड है। आने वाले समय में लगावर राशन काई चनवा जाएगा। जो आबेदन कर सकते है। इस अवसार पर नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ भाई नंबर १० के पार्वद राज् सिन्हा टेक् साइ नगर पंचायत सीएमओ एवं नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

जैन भवन में लगातार चल रहा भक्तामर आराधना अनुष्ठान

'छतीसगढ 'संवाददाता नवापारा-एजिम्, १४ अगस्त । नगर में दिगंबर जैन समाज में चल

रहे चातुर्याम में आर्थिका रह 105 स्ताध्याय एवं नयांमातात्री के सानिध्य में भक्तामर आराधना में अनुसन संपन्न कराय गया। विसके पुण्यानंक रमेश

स्वध्नित स्वपन पीपरी, साकेत सन्त पौधरी, माया पूजा सोनी तथा एकेश सत्यन तुभम चौधरी परिकार रहे सर्वप्रथम गुरुओं का

चित्र अनुवस्य और दोष प्रत्वतन षर आचार्य भगवत २८७ विमद सगर और विभव घरत की पृतन संगीत के माद पाँक पान से संपन्न कराई गई। टिसमें समाज के विधित्र वर्गी के लोगों ने भी श्रामिल होकर पूजन अनुग्रन का लाध लिया।

अर्थिका चर्चा मातानी ने भन्तामर के 15 और 16 नंबर के काव्य का वायन कर अपने मंगल प्रवयन में रहे हैं।

इनका सार बताचा । आनार्च भवनान मानतंगानार्पत्री इस बाव्य के वर्णन में कड़ते हैं कि तीर्थकर भगवान सदैव अपने ज्ञान और ध्यान में लीन रहते. हैं। जिस प्रकार सुबेह पर्यंत कितनी भी प्रलय काल आने पर भी विचलित नहीं होता, उसी तरह आपका भ्यान किंचित मात्र भी

अधीर नहीं होता है। हमें अपने जीवन में 💌 धर्म को स्थान देना चाहिए और अपने इस कभी भी धर्म की अग्रभावन नहीं होने देन हो धर्म की

मन्त्री प्रभावता है। आनार्य भगवान 1008 आदिनाव धननान की रतनि करते हुए कहते हैं कि आप राग, द्रेष मोह रूपी तेत, पुआं और बाती से गरित हैं, फिर भी तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हैं। दीपक तो प्रलय काल में बुझ जाता है। किंतु आप तो केयम जान रूपी दीपक हो जो तीनों लोकों को सदैव हो प्रकारित कर

टिकेश्वर ध्रव के तह.अध्यक्ष मनोनीत होने पर हर्ष

नगरी, 14 अयस्त । गोंड्याना समाज सेवा सर्मित तहसील नगरी द्वारा आदिकासी रुक्तिगत परंपरा अनुसार टिकेश्वर धूच को तह, अध्यक्ष किए जाने पर आदिवासी भूष गोंड समाज तहसील नगरी के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया 📱 है। उन्होंने आजा प्यक चरते हुए कहा कि पूल

को सामाजिक मक्रियता और दृद इच्छ सक्ति से समात को दता की ओर अइसर होगी। दिकेश्वर धूव को नदीन जिम्मेदारी के लिए अदिकामी भूत गाँउ सम्बन तहमील नगरी के अध्यक्ष छेद प्रसाद महामाचिव गरेत छेटैरा मचित्र लाल धूब, ऑडिटर टोकम गंगेल प्रभाग के अध्यक्ष महिंद्र कुमार विकासम नेजाम सुरेन्द्र सोरी, रामस्वरूप धूप, तलान, धनराज धन, अवय राम मरकाम, रामझीत भून, नमरू राम ध्रुव, अमर सिंह मरकान, कंदारनाथ मंद्रकी, स्कंद ध्रुव, होकलाल पडेटी, सीतराम नेतम, संब नेताम ने खुशी

किइसे तर्रा करने के लिए कर्मचरियों

रूम और कॉरिटोर में सीसोरीबी

अदिति कराडे ने बताया, 'यह

को रूम बदलना पदा था।

जल है तो कल है

न्यानप्रापय शासन सहस्रोतहार अभिन्दरपुर-२ विला-सागुज (स.ग.) TLEAT. / 3F-21/2021-24

इंश्तहार

रम्द्रा सं स्थार के प्रशासन त्राज है कि अलेटिया यूग्या यहायाने परि तशीक महाबार, विकासे कौरीपास अभिकास, सामील अभिकास, सिमा भगुज (स.९) हार अस्ते स्वर्तना की त्र र अनुस्कृतिका पूर्व जाना नेक १४३ % मकार टाउरे पुनिर्देशक एवं जर्जा मध्य व गामत हेंद्र इराव्हें की अञ्चयकत होने वं राज्य अवदिक्ता रचना क्षेत्रका की करन कुरात औरराताय, जिलानी प्राप नातेन, व्हाचेत अभ्यापन्, विश्व-समुद्रा (य.ग.) को हर 17,02,000 - (कामा जन्म रो हरत कारों) में रिकार मारो को अनुसीर हेत् अर्थेदन पर कलेकर महोदय के नमध्य उन्हार किया गया है। यो जीन प्रतिनेत्तार्थ हम न्यापालन को प्राप्त हुआ है। पता संबंध में रियो नर्ट य प्राप्त मो बोर्ड अग्रेत हो ते विशेष्टिकांच १९,०५,३०३५ में पूर्व नाज्यात वे स्वर्थ अवस्थाने अधिकान ने प्रकार से प्रचलिता होकर ग्राम्य प्राचीन प्रमृत कर करते हैं। सक्त सोचा के बाद एस दान अवर्षित का कोई विकास को विकास सकते हैं। बाब दिनांन १४.०५.२००४ को मेरे हालाक्षर एवं न्यावशाचीर परपुत्रा हो ऋहि।

गणित का चौराहा - ५५३१

सुडोक्- 6511 का हत (ch)

8		7	3	2	3	5	6	*
5	2	3	6	7	1	9	4	8
9	6	1	5	4		7	1	2
7		5	2	9	3	6	1	4
	9	4	8	6	7	3	2	5
2	3	6	1	4	4	8	1	9
6	1	8		3	2	4	5	7
3	7	2	4	8	5	1	9	6
4	5	9	7	1	6	2		3

मिनी सुडोक्-५३७२ का हल

	3	2	6	1	5	4
	1	5	4	6	2	3
ı	2	3	5	4	1	6
	4	6	1	5	3	2
	5	4	2	3	6	1
	6	1	3	2	4	5

उन्होंने कहा, ' सत में काम करते हुए हमें एक विभाग की इमारत से इसरी इम्परत में जाना पहला है। इन इमारतों और उनके रास्ते में न तो कोई गाउं होता है और न ही कोई अन्य सुरक्षा के इंत्रलूम है।'

अस्पतल से पीजी हॉस्टल के चीच घडक पर पर्वाप्त रोशनी का इंटब्रम न होने को लेकर लोगों में नाखुती है। एक महिला बॉक्टर ने पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए अतन अतन अराय कमरे न होने को भी शिक्यका की।

उन्होंने करा, 'महिरण और पुरुष र्जेक्टरों के विस्तर अगल बगत लगे हुए हैं। मैं इससे सहज नहीं हूं और सुर्राधन भी नहीं लगना। इसलिए यन में में पास ही अरने हॉस्टल चली जाती हैं।"

'एक बार में ठड़के अपनी बाहक से हॉस्टल जा रही थी तो कुछ लड़कों ने पीळ किया। यह बहुत इरावना था। इसने केन्द्र अल्टी बार्ड के बाइर पुलिस देखा (इसके अलावा हर प्रवेत) द्वार पर कई निजी सुरक्षा गाँउ तैनात भे। प्रशासन के जवाब का इंगज़ार है। अने पर अपडेट किया वाएगा।

चंद्रीगदः 'जब हमला हुआ तो कोई सिक्योरिटी नहीं श्री रेशिउँट खॅक्टरों के हड़ताल पर

जन संपास्ट प्रजुएट इस्टार्ष्ट्र आङ । भा दत हुआ है। इस समय अस्पताल मेडिकल एज्केसन एंड रिसर्च को भें कोई सिक्योरिटी नहीं थी।" सेवाओं पर असर पड़ा है।

में कैरेपस में राज के फरीब 11 वने गवा था। दो मिक्योरिटी गाई ट्रॉमा सेंटर के गेट के बादर मरीज़ें और अन्य लोगों से सबल कर रहे थे। प्रवेश द्वार पर चंडीगढ़ पुलिस संचालित एक हेल्प सेंटर है। वहीं, महिला ऑफिसर भी तैनात है।

बार्ड के अंदर नहीं, दॉक्टर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। ट्रॉमा सेंटर के फम एक बेक्स सराया गया था, जिस पर लिखा था कि 'हमें न्याय चाहिए।

चेंनलुरु की रहने वाली और घोजांआई में काम कर रहीं खंकटर पूजा ने कहर, 'परिसर शहरों की ट्लन में पहां अधिक मुख्या व्यवस्था है। 'उन्होंने कहा, 'मेरे पिता भी नाफी चितित हैं क्योंकि कई चर मरीक्षें के परिलर्जे ने डॉक्टरों पर हमला किया। यहीं, मोहाली के सरकारी अस्पतात में काम करने वाले डॉक्टर रुगनदीय सिंह ने फहा, ' सुरक्षा पर्यात

था। इसको लेकर पुलिस में मामला

अस्पतालों में महिला स्टाफ की परेशानी-कभी नशे में धुत लोग, कभी रात में बढ़ता खौफ

इसके जनाब में पीकीआई के न्बाईट मेडिकल मुपरिटेडिट डॉक्टर पंकन जरोड़ा ने बोबीसी से कहा कि अस्पताल में पर्यात सुरक्षा न्यनस्था और सीसीटीयी है।

उन्होंने कहा कि 'डॉक्टरों को कोई शिकरका हैतो उसका समाधान किया जाएगा।

अहमदाबाद: 'डॉक्टरों के कमरे में सोसोटीबी नहीं

राजी अहमदाबाद में स्थित सिविल अस्पत्रल में बाम बनती है। उन्होंने बताचा," हम पोजी हॉस्टल में अस्पताल तक रात की शिक्ट के तिए पेइल जाते हैं। सहक पर पर्यात

प्रतेट लाइट नहीं है। सक्ष ही सहक पर भी मुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा, हमने अस्पतल के प्रशासन से सुरक्षा का इंतजाम करने को कहा है। क्योंकि हम 24 पेटे शिष्ट करते हैं। नहट शिष्ट में महिला द्वॉक्टर अक्सर वार्ड में बने डॉक्टर

उन्होंने एक परना का निक्र करते हुए कहा, 'छह अगस्त को एक मरीज के परिवार ने परिवाल के पास एक वाल रोग विशेषत पर हमला किया है। सामवार को दूर शाम जेज ने कहा, प्रशासन का मार्क्सन वार अस्पनाल के प्रवेश पर फिक्चोरिटी

वहाँ होता है। रिजर्डेट डॉक्टर अदिति कनाई गए थे। मामला इतना बह गया था

कार्यालय उपनि/यरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिल्हा गरिवार्यन् (ग्र.ण.)

का कैपस बड़ा है और कई इलाके में लाइट नहीं है। ऐसे में मुझे रात में हॉस्टल से मेडिकल बार्ड तक जाने में दर लगता है।" उन्होंने आगे कहा, 'एक बार

मृतक मरीज के परिजन गुस्सा हो

कै मरा वहीं लगा है। हर जगह सीमोटीची होना चाडिए। ऑपरेशन धिएटर के पास महिला डॉक्टरों के लिए अलग से कमरा होना चाहिए है, लेकिन ऐसा नहीं है।'

जारिर किए हैं।

नर्स हेमलता गनचे ने भी पर्यात प्रधा व्यवस्था नहीं होने की जिकायन

कभी-कभी अपराष्ट्र योलते हैं और कई नहीं की हालत में होते हैं तो कई सोग राजनीतिक दवाव दलने की भी कोशिश करते हैं। कभी-कभी किसी घटना को स्थिति में हमारी मदद करने के लिए आसपास कोई नहीं होता है।" इसको लेकर जेने अस्पताल करे होन पहली सापले से प्रचल किया गया लेकिन उन्होंने भारत नहीं खड़ा है।

न क्य नहार्थेलकर

अधिकतापुर ०३

(पोबीसी के लिए कलेक्टिक को। उन्होंने कहा, 'परीज़ के परिजन न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित)

> कार्यालय, कार्ययालन अधियंत लोक स्वास्थ्य व्यक्तिको स्वयद्ध, रायपुर, छत्तीसपङ्

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सुचना विकित्त १६ /विज्ञाः/का.भः/ त्रोतवा.योः/ राज्ञगद् त्रवपुर, द्वित्रीक ८६.८६.२०२४

एको रूत पंचीयन प्रकारी अंगर्रत सहाय जेवी में पंची रूत देवेयारों से जिन लिखिल

क्षि	र्वण कार्य हेनू मेनू जल निकिदा आर्थोक्त की जाती है:-	
死	कार्य का सब	देके की गरित (इ.साख में)
	कार्यातम मितर संभागक रात जीवर सितर लोक स्थान्स्य पर्वितको विभाग सकपुर गरिवार के कार्यो में सर्वत्स्य, प्लान्सर, इलेक्ट्रीक मुख्या कार्य एवं अन्य लिक्टिक कार्य (जनकर समग्री सिट्टा)।	2.21
2	केन्द्रीय भग्छा(गृह लोक स्वत्स्थ्य प्रश्निकी विभाग दयपुर में प्लास्टर, पेंटेंग, स्ट्रीट लाईट, वाचरिंग करने का कार्य एवं अन्य विश्विल कार्य (संयक्त समग्री सर्वित)।	1,44

उपरोक्त कार्यों की निविद्या की सम्याज्य हतीं, आरोहर दक्ति, जिसतूत निविद्या बिद्धी। रिक्सि इस्तबेत व अन्य राजवारी बार्यलयोग समय में जिल्हा प्रपन्न क्रम करने हेनु आनेदन प्रस्तुत करने बरे ऑतम लिया ३१,०६,३०३४ प्रापं ८,३० बाते तब प्रमानों का सकती है।

कार्यपालन अधियंता रायपुर छनीसगड्ड

Name, Fame and Game-5431 Solution

अगर आप कुछ नाम ढूंढ न पाए हों तो वहां दिए गए उत्तरों की मदद लें। नामों को आड़ी और खड़ी कतारों के संबर व उनकी दिशा के आधार पर देवें

(Over, Down, Direction)	GolMaal	
Asshin	Karna	
and the second	Kasam	
ArarPren	Mastaaa1	
Andaz	Kaseeb	
Aveara	Padoran	
banvra	RADAVER	
Barsaac	Sargan	
Bobby	Tezaab	
Daeten	Thikana	
Deewaar	Vijay	

नहीं लगे हैं।

सम में आराम करतो हैं।" एक अन्य महिला टॉक्टर ने बताय कि कई बार नरोजों के परिजन रूम में आ जाते हैं और घटतमीती करते हैं। हम में सीसीरीची कैमरे

सिवित अस्पताल का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्ड वानी द्वाँमा सेंटर के बाहर आठ सिक्योरिटी गार्ड मील्ड थे, लेकिन वार्ड में रात में आने वाले लोगों से बो कोई सवाल नहीं करते।

मैं एक बाई में प्रवेश किया और फिर दूसरे वार्ड में गई, लेकिन किसी ने कोई सवास नहीं पूछा।

सिवित अस्परात के एडिउनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रजनीत पटेल ने बीबोसी को बताया कि अस्पताल में 'सुरक्ष व्यवस्थ नवद्व'है। उन्होंने बहा कि 'जूनिया डॉकर रें

के एसोसिरशन ने लड़र का मुद्य इत्रय चा और हमने इसको लेकर

करम शुरू कर दिया है। म्बई: 'कभी कभी मदद के लिए कोई नहीं होता

एक महिला डॉन्टर ने नहां कि कभी-कभी हमारे अस्य-चस हमारो मदद के लिए कोई मीजद् नहीं होता

और केंप्स के बाहर सिक्योरिटी गाई की संख्या बदानी चाहिए। आस्पताल

गार्ड मीज्द थे। इय अस्पताल के केपस में जा सकते थे, लेकिन बिना अनुबति मेडिकल बाई में नहीं जा सकते।हालांकि, महिला डॉक्टर और वर्रा ने कहा कि उन्हें नहार शिक्ट में काम करने के दौरान सुरक्षित पहसूस

निविदा आमंत्रण हेत् कार्य की सूची विकित अर्थक्त मुख्या हर, पुत्र-परि-१३४४८-१/2224 वरिकार्य, दिवास २४.२४.२०२४ एनीएमा के एल्यान की ओर ये तोक निर्देश निर्देश मिंदर RES में ऐनी काई रोजी रूप में बठन हो को का कार केले के टेकेटर प्राप्त 'आ' में प्रतिकार पर पर सनीवरूप प्रवास लोग निर्माय विचल हात जाते जबन बार्स के इला.जो.जार, ८१.८१.,३८१५ के जन्मर पर विम्मतिनिवर विभि को अभोत्रमाध्यक्तार्थ के कार्यातम में मुशर्बद हो रिकामा स्ट्रांट के प्रदेश विकास प्राप्त क्योत पोक्स हिल्ला क्यांच्या आपीता की एकोची अधिकार से अवस्थित विभिन्न विकार करते हैं. - १. विभिन्न प्रथा जार करते हेतु असेट्स क्रिके को अधिक विभिन्न 27.08.2224 अगरान्त 06.00 याते राज 2. विविधा प्रयो पार्यात्तप में क्या परने की अंदिम विकि 26,06,2004 अध्यान देऽ ८० करे एक ३, विकिस सुसने की विकि - 26,06,2004

Ħ.	कार्य का विकास	कार्य भी लागन	अधानन शरि यी.दी.आर. के समार्थ	
1	2	3	4	
m	बान रेवचेंग में बान बचन पर मरम्बर पार्च।	1,40.0518	1933	
02.	बल गरिवका वे का का ना प्रकार कार।	६३३तच	1933	
23	बान गुरा में एकन बाना पायन का मालान नार्ने (1,00 लाख	7933	

गानं 04.20 बारे से । (जनोक में से बिजो निधि को मातलीय अवकात भेषित होते जी किवर्ति में अन्तर्यों कर्ज दिखा में एवं किवंदित सुरूप एक ग्रन्ट किया प्रारोग ()

है। यह वर्षा करने महित होनी :विकिन्न की अन्य निवन ये क्षाँ को वानकारी पुलिन आवेशक प्रत्यांत्रम् मतिनवांद्र से प्रत्यांत्रमीन सकत में वाद्र को दव सफती है। वरि पुरित्म अधीत्रक किया-वरिकार्यः (स.म.)

ची-242501791/1

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी खबट,

Rogd. Office: \$21fC, Urla Industrial Complex, Urla, Raigur-489221 (C.G.) Tel. No.0771-4289000, Fax No: +91-771 4288001, (Formerly Known as Shri Bajrang Alloys Limited) Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter/three Month Ended June 30, 2024

SL No.	Particulars		erosco de	Standalone	2000000	Consolicated				
		Quarter ended Year e				Quarter ended			Year ended	
		30.05.2004	31.03.2924	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1.	Total income from Operations	13,116.04	23,022.65	15,128.13	57,424.41	13,106.89	23,022.65	15,128.13	57,426.41	
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	48.90	485.14	377.76	486.50	39.70	484.52	377.56	487.15	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	48.90	485.14	377.76	486.59	39.70	484.52	377.58	487.15	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and for Extraord nary items)	34.75	376.12	270.80	312.58	25.54	375.66	270.60	312.85	
5.	Shares of Profit of Associates	-				670.27	1,093.53	937.13	3,773.41	
6.	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	84.45	382.61	333.65	395.69	745.52	1,475.78	1,240.58	4,169.39	
7.	Paid-up Equity Share Capital	500.00	900.00	900.000	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
8.	Basic and Diluted Earning per share (of Rs. 104-each) (not annualised)	0.39	4.18	3.01	3.47	7.73	16.33	13.42	45.40	

Note: 2 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended/three months 30.05.2024 filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended, three months on 30.06, 2024 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website www.stat.co.in.

By Order of the Board

Place: Raipur (C.G.)

(ARCHIT GOEL) WTD & CFO DIN: 07685623